



# SYLLABUS FOR THE MONTH OF SEPTEMBER (SESSION 2019-20)

## CLASS: 2

**THEME: “Matrabhasha Hindi”**

**PROJECT: “Indian Writers & poets”**

ENGLISH	HINDI	MATHS	EVS	COMPUTER
<p><b>Ch-3 “A Burger’s Story”</b> <b>Grammar –</b> <b>Tenses</b> (Simple present and present continuous tense)</p> <p><b>ACTIVITY: Drawing of a burger in the book.</b></p> <p>Recapitulation Worksheet will be held on <b>11.9.19(Wednesday)</b> <b>Syllabus:</b> <b>Ch-3 “A Burger’s Story”, Adjectives and Pronouns</b></p>	<p>पाठ 9 -“होली है” व्याकरण- समान तुक वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन, गिनती -1 से 15 तक</p> <p>गतिविधि : रंग बनाना सिखें ( लाल तथा सफेद को मिलाने पर हमें गुलाबी रंग मिलता है। )</p> <p>पुनरावृत्ति कार्यपत्रक -13. 9.19 (शुक्रवार) को लिया जाएगा । पाठ्यक्रम - पाठ - 7 “तितली” (कविता) पाठ -8 “ सुनिधि गई बाज़ार” व्याकरण - विशेषण , लिंग बदलो</p>	<p><b>Ch-4</b> “Addition and Subtraction of Greater Numbers”</p> <p><b>Ch-13</b> “Data Handling”</p> <p><b>ACTIVITY: making a data of class furniture and fixture.</b></p> <p>Recapitulation Worksheet will be held on <b>16.9.19 (Monday)</b> <b>Syllabus:</b> <b>Ch-3</b>“Subtraction of 2 digit numbers” <b>Ch-8</b> “Fractions”.</p>	<p><b>Ch-9</b> “Living and Non - Living World” <b>Ch-10</b> “The Green world”</p> <p><b>Worksheet- 9 &amp; 10</b></p> <p><b>ACTIVITY: “Pictionary”</b> for living and non – living things.</p> <p>Recapitulation Worksheet will be held on <b>18.9.19 (Wednesday)</b> <b>Syllabus:</b> <b>Ch-7</b> “Safety and First aid” <b>Ch-8</b> “Our Environment”</p>	<p><b>Ch-6</b> “ Using the mouse” *Revision of Ch.- 1 to 6</p> <p><b>ACTIVITY:</b> * Lab practical to know about computer more.</p> <p>Recapitulation Worksheet of Computer Term – I will be held on <b>20.9.19 (Friday)</b> <b>Syllabus:</b> Ch- 1 to 5 from the text book.</p>
ART/CRAFT	MUSIC	DANCE	PHY.EDUCATION	YOGA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dancing girl</li> <li>Rooster</li> <li>Ring master</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sargam Practice(different type of sargam)</li> <li>Children song( chu chu karti aayi chidiya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salsa with hula hoop ( Maria Maria)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hitting &amp; Kicking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standing Asanas (Meditation Yog Nidra)</li> </ul>

--	--	--	--	--